

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15, 1983/पौष 25, 1984
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JAN 15, 1983/PAUSA 25, 1984

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

अभियुक्तता

नई दिल्ली दिनांक 12 जनवरी 1983

का०नि०आ० 5(अ) --संश्लेषण तथा (शांतिा दृष्टिसे) अधिनियम 1947 (1947 का
15वां) की धारा 2 की उप धारा (1) द्वारा प्रचलित किये जा प्रयोग करने हुए और भारत
सरकार रक्षा मंत्रालय की दिनांक 18 अप्रैल 1981 की अभियुक्तता का०नि०आ० सं० 14-ई,
16 मई 1981 की अभियुक्तता का०नि०आ० सं० 15-ई 16 जून 1981 की अभियुक्तता
का०नि०आ० सं० 17-ई 16 जुलाई 1981 की अभियुक्तता का०नि०आ० सं० 18-ई 17 अगस्त,
1981 की अभियुक्तता का०नि०आ० सं० 21-ई, 16 सितम्बर 1981 की अभियुक्तता का०नि०
आ० सं० 22-ई 17 अक्टूबर 1981 की अभियुक्तता का०नि०आ० सं० 25-ई, 18 नवम्बर
1981 की अभियुक्तता का०नि०आ० सं० 26-ई 17 दिसम्बर 1981 की अभियुक्तता का०नि०
आ० सं० 32-ई 15 जनवरी 1982 की अभियुक्तता का०नि० आ० 4-ई 13 फरवरी 1982
की अभियुक्तता का०नि० आ० सं० 7ई- 16 मार्च 1982 की अभियुक्तता का०नि०आ० सं०

8-ई, 16 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना कां०नि०प्रा० सं० 9-ई, 17 मई, 1982 की अधिसूचना कां०नि०प्रा० सं० 11-ई, 17 जून, 1982 की अधिसूचना कां०नि०प्रा० सं० 12-ई, 17 जुलाई, 1982 की अधिसूचना कां०नि०प्रा० सं० 15-ई, 17 अगस्त, 1982 की अधिसूचना कां०नि०प्रा० सं० 18-ई, 16 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना कां०नि०प्रा० सं० 21-ई, 15 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना कां०नि०प्रा० सं० 24-ई, 16 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना कां०नि०प्रा० सं० 25-ई और 16 दिसम्बर, 1982 की अधिसूचना कां०नि०प्रा० सं० 29-ई के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा असम राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और संभरण तथा वाहन लाइनों और रेल प्रतिष्ठानों को चलाने और उनके अनुसरण से संबंधित प्रत्येक सेवा को 18 जनवरी, 1983 से एक महीने की और अवधि के लिए सप्ताज के लिए अस्थायिक महत्व की सेवा घोषित करती है।

[का० सं० 2(35)/80-डी० (जी०एन०)]

के०ए० नम्बियार, सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 1983

S.R.O. 5(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), and in continuation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 14-E dated the 18th April 1981, S.R.O. No. 15-E dated the 16th May, 1981, S.R.O. No. 17-E dated the 16th June, 1981, S.R.O. No. 18-E dated the 16th July 1981, S.R.O. No. 21-E dated the 17th August 1981, S.R.O. No. 22-E dated the 16th September 1981, S.R.O. No. 25-E dated the 17th October 1981, S.R.O. No. 26-E dated the 16th November 1981, S.R.O. No. 32-E dated the 17th December 1981, S.R.O. No. 4-E dated the 15th January 1982, S.R.O. No. 7-E dated the 15th February 1982, S.R.O. No. 8-E dated the 16th March 1982, S.R.O. No. 9-E dated the 16th April 1982, S.R.O. No. 11-E dated the 17th May 1982, S.R.O. No. 12-E dated the 17th June 1982, S.R.O. No. 15-E dated the 17th July 1982, S.R.O. No. 18-E dated the 17th August 1982, S.R.O. No. 21-E dated the 16th September 1982, S.R.O. No. 24-E dated the 15th October 1982, S.R.O. No. 25-E dated the 16th November 1982 and S.R.O. No. 29-E dated the 16th December 1982, the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with, the production and supply of petroleum products and running and maintenance of oil installations and pipelines in Assam to be a service of vital importance to the community for a further period of one month with effect from 18th January, 1983.

[F. No. 2(35)/80/D(GS.I)]

K. A. NAMBIAR, Jt. Secy.